

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2011—भाद्र 11 शक 1933

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 24 अगस्त 2011

क्र. 7867-एस.सी.-1-2011.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका अधिनियम, 1961 (संशोधित 1994) की धारा 29(क) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के वार्डों का आरक्षण) संशोधित नियम 1 सितम्बर 2007 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार हरदा जिले की नगरपालिका परिषद् हरदा के निर्वाचन हेतु मैं, डॉ. सुदाम खाडे, कलेक्टर, जिला हरदा क्रमशः निम्नानुसार वार्डों का आरक्षण करता हूँ.

नगरपालिका परिषद् हरदा

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)	आरक्षण का प्रकार (3)	स्टेटस (4)
1	जयप्रकाश नारायण वार्ड	अनुसूचित जाति	महिला
2	चन्द्र शेखर आजाद वार्ड	अनुसूचित जाति	मुक्त
3	मोहनदास करमचंद गांधी वार्ड	अनारक्षित	मुक्त
4	हनुमान वार्ड	अनारक्षित	महिला
5	नरसिंह वार्ड	अनारक्षित	मुक्त
6	शहीद भगतसिंह वार्ड	पिछड़ा वर्ग	महिला
7	डॉ. राधाकृष्णन वार्ड	अनारक्षित	मुक्त
8	बाबू जगजीवनराम वार्ड	अनारक्षित	महिला
9	छत्रपति शिवाजी वार्ड	अनारक्षित	मुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)
10	इंदिरागांधी वार्ड	अनारक्षित	मुक्त
11	गणेश शंकर विद्यार्थी वार्ड	पिछड़ा वर्ग	महिला
12	व्ही. व्ही. गिरी वार्ड	पिछड़ा वर्ग	मुक्त
13	राजीव गांधी वार्ड	अनारक्षित	महिला
14	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड	अनारक्षित	मुक्त
15	आचार्य विनोबा भावे वार्ड	अनारक्षित	मुक्त
16	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड	पिछड़ा वर्ग	महिला
17	लाला लाजपतराय वार्ड	अनुसूचित जाति	महिला
18	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड	पिछड़ा वर्ग	महिला
19	महाराणा प्रताप वार्ड	अनारक्षित	महिला
20	स्वामी विवेकानन्द वार्ड	पिछड़ा वर्ग	मुक्त
21	संजय वार्ड	अनारक्षित	महिला
22	पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड	पिछड़ा वर्ग	मुक्त
23	फकरूद्दीन अली अहमद वार्ड	अनारक्षित	महिला
24	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड	अनारक्षित	महिला
25	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड	अनुसूचित जनजाति	मुक्त
26	देवी अहिल्याबाई वार्ड	अनारक्षित	महिला
27	लोक मान्य तिलक वार्ड	अनारक्षित	मुक्त
28	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	अनुसूचित जाति	मुक्त
29	डॉ. जाकिर हुसेन वार्ड	पिछड़ा वर्ग	मुक्त
30	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड	अनारक्षित	महिला

उपरोक्तानुसार वार्ड आरक्षण नगरपालिका हरदा के आगामी निर्वाचन तक सीमित रहेंगे.

सुदाम खाडे, कलेक्टर.